

AKM LACE AND EMBROTEX LIMITED

CIN: U17291DL2009PLC196375

Regd. Office: IX/6024, Ram Gali, Subhash Mohalla, Gandhi Nagar, Delhi-110031 Corp. Office: 328-329, RG Complex-II, Plot No.5, Sector-14, Rohini, Delhi-110085 Tel: 011-49856126, 9899173704 | E-mail: akmlace@gmail.com | website: www.akmlace.com

Date: 09-09-2019

To, BSE Limited PJ Towers Dalal Street Fort Mumbai- 400001

Subject: Disclosure under Regulation 30 of SEBI(LODR) Regulations, 2015

Dear Sir,

With reference to the cited subject, please find enclosed herewith the newspaper publication of the notice of Annual General Meeting of AKM LACE AND EMBROTEX LIMITED in one English and one Hindi newspaper.

Thanking You,

Yours faithfully,

For AKM LACE AND EMBROTEX LIMITED

en joisul

Rajeev Jaiswal
Company Secretary

Place: Delhi

DELHI LI

Ujjwala achiere schedule

tion e

provas

stateof

free Th

give th

sidy ily

rity fe

Uly

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, September 6

THE GOVERNMENT WILL achieve the target of giving 8 crore free cooking gas (LPG) connections to the poor nearly seven months ahead. of schedule with Prime Minister Narendra Modi set to handover the 8-croreth connection on Saturday.

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) was launched on May 1, 2016, with a target to give 5 crore connections to women members of poor households by March 2019. The target was later raised to 8 crore connections by March 2020.

"Prime Minister Narendra Modi will be handing over the 8 croreth connection under PMUY at an event which will be organised in Sendra, Aurangabad, Maharashtra on September 7," an official statement said here.

The scheme, together with the government's push to replace polluting firewood in

CSL Finance Limited

Regd. Office: 410-412, 18/12, 4th Floor, W.E.A, Arya Samiaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 Corp. Office: 716-717, 7th Floor, Tower-B, World Trade Tower, Sector-16, Notid, U.P.-20130 (CIN: L74899DL1992PLC051462; Tei: 0120-4290650; Email: info@cslfinance.in; Web: www.cslfinance.in)

(Cin: L'A999JL-1297-L'U051462; fel: 012/0-429050; Emalt: info@csifinance.in; Web: www.csifinance.in; NoTICE
Pursuant to the Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 13° September, 2019, at the corporate office of the company i.e. 716-717, 7° Floor, Tower B, World Trade Tower, Sector 16, Noida, U.P. – 201301, at 4.00 p.m. inter-alia to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30.06.2019 prepared in accordance with IND-AS Rules, which have been applicable on the company for the first time for quarter ended 30.06.2019. The said notice is also available on the website of the Company i.e. www.csifinance.in and on the website of Stock Exchange i.e. www.bseindia.com.

By order of the Board

By order of the Board

Managing Director

SPA CAPITAL SERVICES LIMITED

Registered Office: 25 C- Block Community Centre, Janakpuri, New Delhi - 110 058 Website: http://www.spacapital.com/CapitalServices CIN: L65910DL1984PLC018749 Tel No. 011-45586600, 45675500 E-Mail Id: listing@spacapital.com NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to SEBU (LODR) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, September 14, 2019, inter alia, to consider and approve, the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on June 30, 2019. The notice is also available on the website of BSE Ltd. at www.bseindia.com as well as on the Company's website at http://www.spacapital.com/CapitalServices For SPA Capital Services Limited

Place: New Delhi Date: September 06, 2019

Kaial Gupta Company Secretary & Compliance Officer

timelines set (March 2020)," it said. risinde

The states of Uttar Pradesh (1.46 crore), West Bengal (88 lakh), Bihar (85 lakh), Madhya Pradesh (71 lakh) and Rajasthan (63 lakh) have topped the list with highest number of beneficiaries under PMUY.

Nearly 40% of the beneficiaries belong to SC/ST categories.

tinge THI PIYUSH TRADE AND INVESTMENT LIMITED

OWN CIN NO.: 165990DL1982PLC256291

office: 314, 3RD Floor, Opposite Plot No. 39, R. G. Mall, Sector-9, Rohini, New Delhi-110085

ciarie fo@pptinvestment.com, Website: www.pptinvestment.in, Phone: 011-42804171

FIRST TOP OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE
HOWER E-VOTING INFORMATION

refills is hereby given that

H Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be 1.3, Second Floor, Prashant Vihar, Rohini, New Delhi-110085 ray, September 30; 2019-ag 09:00 A:M to transact the Ordinary 3, as, set out in the Notice of AGM;

poor hs, as, set out in the Notice of AGM, c Copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2019 has given sent to all members whose email IDs are registered with chase
it sent to all members whose entail to sale rejected with
the same is also available on the
's Website www.pptinvestment.in. Physical copies of the Notice
and Annual Report for 2019 have been sent to all other
at their registered address in the permitted mode. The dispatch
of AGM has been completed on September 05, 2019.

i holding shares either in physical form or in dematerialized on the cut-off date of September 20, 2019, may cast their ronically on the Ordinary Business as set out in the Notice of ugh electronics voting system of Central Depositories Services (CDSL) from a place other than venue of AGM ("remote), Mr. Jeewan Bose, Practicing Company Secretary has been). Mr. Jeewan Bose, Practicing Company Secretary has been as Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and ballot icess in a fair and transparent manner. All the members are

Mumbai In that: incorporal endinary Business as set out in the Notice of AGM may be consortium acted through voting by electronics means:

Airport (CS mote e-voting shall commence on September 27, 2019 at world's best A.M.

As a part amote e-voting shall end on September 29, 2019 at 05:00

consisting it-off date for determining the eligibility to vote by electronic upper Floos or at the AGM is September 20, 2019. upper Fo or at the AGM is September 20, 2019.

and Build arson, who, acquire shares of the Company and become er of Company after dispatch of the Notice of AGM and a shares as of cit-off date i.e. September 20, 2019, may the login ID and password from Company's Registrar and Transfer Agent or CDSL. However, if person is already work, plass are districted in the company of the company of the company of the company of the company and become er of Company after dispatch of the Notice of AGM and a specific provided the Notice of AGM and a specific provided the logical p

fencing wor waterproof

rencing ord can be used for casting vote;
waterproductions are successful and the continuous and the continu

of queries, members may refer to the Frequently Asked uns) (FAQs) for members and e-voting user manual for Actoress for a savailable www.evotingindia.com under help section or

a available www.evoluminia.com lines help second of a e-mail to helpdesk.evoling@dslindia.com or contact esh Dalvi, Deputy Manager of CDSL, 16th Floor, P. J. Dala Street, Mumbai-400001, Phone No. 18002005533.

Chhad is may also write to the Company Secretary at 1.st Floor, Terrinvestment.com or the Registered Office address of the

BOOK CLOSURE

This invitation prospective's Members and the Share Transfer books of the Company prospective of from September 21, 2019 to September 30, 2019 (both invitation to or

THE EOIS OF THE PANKAJ PIYUSH TRADE AND INVESTMENT LIMITED Sarita Singh Company Secretary

er 04, 2019

AKM LACE AND EMBROTEX LIMITED

CIN NO.: L17291DL2009PLC196375
Registered office: IX/6024, Ram Gali, Subhash Mohalla,
Gandhi Nagar Delhi East Delhi DL 110031
Email: akmlace@gmail.com, Website: www.akmlace.com,
Phone: 011-49856126

NOTICE OF 10TH ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION

The notice is hereby given that:

The 10th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held at D-13, Second Floor, Prashant Vihar, Rohini, Delhi-110085 on Saturday, September 28, 2019 at 11:00 A:M to transact the Ordinary Business, as set out in the Notice of AGM;

Electronic Copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2019 have been sent to all members whose email IDs are registered with the Depository Participants. The same is also available on the Company's Website www.akmlace.com. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2019 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on September 95, 2019.

0

D

pi

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 20, 2019, may cast their vote electronically on the Ordinary Business as set out in the Notice of voie electronically on the Urolinary Business as set out in the Notice of AGM through electronics voting system of Central Depositories Services Limited (CDSL) from a place other than venue of AGM ("remote evoting"). Mr. Jeewan Bose, Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and ballot voting process in a fair and transparent manner. All the members are informed that:

The Ordinary Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronics means:

The remote e-voting shall commence on September 25, 2019 at 10:00 A.M.

The remote e-voting shall end on September 27, 2019 at 05:00 P.M. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 20 2019.

means or at the AdM is September 20 2017.

Any person, who acquire shares of the Company and become member of Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e. September 20, 2019, may obtain the login ID and password from Company's Registrar and Share Transfer Agent or CDSL. However, if person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and assword can be used for casting vote;

Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the members, the member once the vote on a resolution is cast by the members, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the ACM; and c) the member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial members maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM through ballot paper;

The Notice of AGM is available on the Company's website www.akmlace.com and also on the CDSL website www.cdslindia.com; and

In case of queries, members may refer to the Frequently Asked In case of queries, intellibets hay feel to the integration of account of the country of the cou may also write to the Company Secretary at akmlace@gmail.com or the Registered Office address of the Company.

BOOK CLOSURE

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from September 20, 2019 to September 27, 2019 (both days inclusive).

For AKM LACE AND EMBROTEX LIMITED

Place: Delhi Date: September 03, 2019

Rajeev Jaiswal Company Secretary

INDIA FINSEC LIMITED

CIN NO.: L65923DL1994PLC060827
Registered office: D-16, First Floor, Above ICICI Bank, Prastiant Vihar, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
Email: indiafinsec@gmail.com, Website: www.indiafinsec.com, Phone: 011-47096097

NOTICE OF 25TH ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE
E-VOTING INFORMATION

he notice is hereby given that

The 25th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held at D-13, Second Floor, Prashant Vihar, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 on Monday, September 30, 2019 at 11:00 A:M to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM;

Electronic Copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2019 Electronic Copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2019 have been sent to all members whose email IDs are registered with the Depository Participants. The same is also available on the Company's Website www.indiafinsec.com. Physical copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2019 have been sent to all other members at their registered address in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on September 05, 2019.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized Members holding shales elitie in Physical with a first entertainty form, as on the cut-off date of September 20, 2019, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronics voting system of Central Depositories Services Limited (CDSL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). Mr. Jeewan Bose, Practicing Company

MASK INVESALCOM VISION LIMITED

receipt of any

ानः दिल्ली धः 06 सितम्बर, 2019

हस्ता./-अभिशेक बरदिया प्रबंध निदेशक DIN:06670438

स्थानः दिल्ली तिथि: 06 सितम्बर, 203 े लगराइजी ।इस्टिलैशजा ।लामदङ का ।लाय हस्ता. कमल जैन डूगर प्रबंध निदेश DIN:06825945

ट्रेड एंड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड L65990DL1982PLC256291 14, 3रा तल, प्लॉट नं. 39 के सामने वटर-9, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 nfo@pptinvestment.com : www.pptinvestment.in सभा, रिमोट ई-व्येटिंग जानकारी की सूचना

धारण सभा ('एजीएम') डी-13, दूसरा तल, प्रशांत 110085 में सोमवार 30 सितम्बर, 2019 को 9.00 बजे गी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा त किया जाएगा।

के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंटस के पास ाईट- www.pptinvestment.in पर भी उपलब्ध 2019 के वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य सभी में उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई हैं। एजीएम सूचना को परा कर लिया गया है।

ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति या डीमैटीरियलाइज्ड वाले सदस्य एजीएम के अन्यत्र के स्थल से सेन्ट्रल मंटेड (सीडीएसएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष रूप से मतदान कर सकते हैं। स्वच्छ तथा पारदर्शी त-पत्र द्वारा मतदान प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सभी

दिंष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिव नेष्पादित किया जाएगाः

बर, 2019 को 10 बजे पूर्वा. आईएसटी में शुरू होगी बर, 2019 को 5:00 बजे सायं आईएसटी में बंद होगी। थवा एजीएम में मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के सितम्बर, 2019 है।

सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का शेयर अर्ज़ित कि ाने हों तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 20 सितम्बर, 2019 वे कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट अथवा ईंडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि कोई सीडीएसएल में पहले से पंजीकृत हों, वे मतदान करने ार आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

ह) उपसेक्त तिथि एवं समय के बाद सीडीएसएल द्वारा वेटिंग पद्धति अवरुद्ध कर दी जाएगी तथा सदस्य द्वारा मतदान कर देने के बाद उन्हें बाद में उसमें परिवर्तन जाएगी; ख) एजीएम में मतपत्र द्वारा मतदान करने की (गी; ग) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर देने । सभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन सभा में उन्हें फिर ति नहीं दी जाएगी; तथा घ) जिस व्यक्ति का नाम कट रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी होगा, वे ही रिमोट ई-बोटिंग अथवा मत पत्र के द्वारा लिए अधिकृत होंगे।

की वेबसाईट www.pptinvestment.in तथा साथ ट www.cdslindia.com पर भी उपलब्ध है; तथ लिए सदस्यगण www.evotingindia.com के ों के लिए Frequently Asked Questions मों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें edslindia.com पर ई-मेल करें अथवा श्री राकेश प प्रबंधक, 16वाँ तल, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, नं. 18002005533 से संपर्क करें। सदस्यगण it.in पर अथवा पंजीकृत कार्यालय के पते पर कंपनी है।

पुस्तक बंद होना ही शेयर अंतरण पुस्तकें अंतरण पुस्तकें 21 सितम्बर, 2019 से 30 सितम्बर बंद रहेंगे।

नज पीयूश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड के लिटे हस्ता./ सरिता सिंह कम्पनी सचिट

इंडिया फिनसेक लिमिटेड

CIN NO: L65923DL1994PLC060827 पंजीकृत कार्यालयः डी-16, प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, प्रशांत विहार, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085, ई-मेल आईडी: indiafinsec@gmail.com, वेबसाईट: www.indiafinsec.com फोन: 011-47096097 25वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि:

कंपनी की 25वीं वार्षिक साधारण सभा ('एजीएम') डी-13, दूसरा तल, प्रशांत विहार, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 में सोमवार 30 सितम्बर, 2019 को 11.00 बजे पूर्वी. में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

एजीएम सूचना तथा 2019 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स के पास दर्ज हैं। वह कंपनी की वेबसाईट- www.indiafinsec.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना तथा 2019 के वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को व्वीकृत प्रक्रिया में उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है। एजीएम सूचना का प्रेषण 5 सितंबर, 2019 को पूरा कर लिया गया है।

20 सितम्बर, 2019 की कट ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति या डीमैटीरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य एजीएम के अन्यत्र के स्थल से सेन्ट्रल हिपॉजिटरीज सर्विसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (''रिमोट ई-वोटिंग'') द्वारा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसार्थों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में ई-वोटिंग तथा मत-पत्र द्वारा मतदान प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए श्री जीवन बोस कार्यरत कंपनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किया जाएगाः

रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 को 10.00 बजे पूर्वा. आईएसटी में शुरू होगी:

रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 29 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे सायं आईएसटी में वंद होगी।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट-ऑफ तिथि 20 सितम्बर, 2019 है।

यदि कोई व्यक्ति एजीएम सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का शेयर अर्जित किए हों तथा कंपनी का सदस्य बने हों तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 20 सितम्बर, 2019 को शेयर धारित करते हों, वे कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट अथवा सीडीएसएल से लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि कोई सदस्य ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल में पहले से पंजीकृत हों, वे मतदान करने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

सदस्यगण ध्यान रखें कि: क) उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद सीडीएसएल द्वारा मतदान के लिए रिमोट ई-वोटिंग पद्धति अवरुद्ध कर दी जाएगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; ख) एजीएम में मतपत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी; ग) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर देने के बावजूद सदस्य साधारण सभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन सभा में उन्हें फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएंगी; तथा घ) जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, वे ही रिमोट ई-बोटिंग अथवा मत पत्र के द्वारा एजीएम में मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे।

एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाईट www.indiafinsec.com तथा साथ ही सीडीएसएल की वेबसाईट www.cdslindia.com पर भी उप viii. किसी प्रकार की पूछताछ के लिए सदस्यगण www.evotingindia.com के

डाउनलोड खंड में सदस्यों के लिए Frequently Asked Questions (FAQs) तथा सदस्यों के लिए ई-बोटिंग युज्य मैन्युअल देखें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल करें अथवा श्री राकेश डाल्वी, सीडीएसएल के उप प्रबंधक, 16वाँ तुल, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुम्बई-40001, फोन नं. 18002005533 से संपर्क करें। सदस्यगण indiafingene नक्कर), जार के प्रतिकार के प्रति पर कंपनी सचिव को

पुस्तक बंद होना पदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 21 सितम्बर, 2019 से 29 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक बंद रहेंगे।

> इंडिया फिनसेक लिमिटेड के लिए हस्ता.

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 4 सितंबर, 2019

र्षा भारती कंपनी सचिव

एकेएम लेस एंड एम्ब्रोटेक्स लिमिटेड CIN NO: L17291DL2009PLC136375 पंजीकृत कार्यालाः IX/SO20, राम गली, सुभाष मोहल्ला, गाँघी नगर, दिल्ली पूर्व दिल्ली डीस्ल 110031 इमेल: akmlace@gmail.com, वेबसाईट : www.akmlace.com फोनः 011-49856126

10वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

 कंपनी की 10वीं वार्षिक साधारण सभा ('एजीएम') डी-13, दूसरा तल, प्रशांत विहार, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 में शनिवार 28 सितम्बर, 2019 की 11.00 बजे पूर्वा. में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।

एजीएम सूचना तथा 2019 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेंक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट्स के पास दर्ज हैं। वह कंपनी की वेबसाईट- www.akmlace.com पर भी उपलब्ध है एजीएम की सूचना तथा 2019 के वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को स्वीकृत प्रक्रिया में उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई हैं। एजीएम सूचन का प्रेषण 5 सितंबर, 2019 को पूरा कर लिया गया है।

3. 20 सितम्बर, 2019 की कट ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति या डीमैटीरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य एजीएम के अन्यत्र के स्थल से सेन्ट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेस लिमिटेड (सीडीएसएल) की इलेक्ट्रॉनिक ब्रोटिंग प्रणाल (''रिमोट ई-वोटिंग'') द्वारा एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। स्वच्छ तथा पारदर्श प्रक्रिया में ई-वोटिंग तथा मत-पत्र द्वारा मतदान प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए श्री जीवन बोस कार्यरत कंपनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान द्वारा निष्पादित किया जाएगाः

रिमोट ई-वोटिंग 25 सितम्बर, 2019 को 10 बजे पूर्वा. में शुरू होगी; रिमोट ई-वोदिंग 27 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे साथ में बंद होगी।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अथवा एजीएम में मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए कट-ऑफ तिथि 20 सितम्बर, 2019 है।

यदि कोई व्यक्ति एजीएम सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का शेयर अर्जित कि हों तथा कंपनी का सदस्य बने हों तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 20 सितम्बर, 2019 को शेयर धारित करते हों, वे कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट अथव सीडीएसएल से लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि कोई सदस्य ई-वीटिंग के लिए सीडीएसएल में पहले से पंजीकृत हों, वे मतदान करने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

सदस्यगण ध्यान रखें कि: क) उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद सीडीएसएल द्वारा मतदान के लिए रिमोट ई-वोटिंग पद्धति अवरुद्ध कर दी जाएगी तथा सुदस्य द्वार किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें बाद में उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं वी जाएगी; ख) एजीएम में मंतपत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी; ग) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर देने बावजूद सदस्य साधारंण सभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन सभा में उन्हें फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा घ) जिस व्यक्ति का नाम कट ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, वे ही रिमोट ई-वीटिंग अथवा मत्पत्र के द्वार एजीएम में मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे।

vii. एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाईट www.akmlace.com तथा साथ ही सीडीएसएल की वेबसाईट www.cdslindia.com पर भी उपलब्ध है; तथा

किसी प्रकार की पृथलाङ के लिए सदस्याण www.evotingindia.com के डाउनलोड खंड में सदस्यों के लिए Frequently Asked Questions (FAQs) तथा सदस्यों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें — या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर अथवा श्री सकेश डाल्वी, सीडीएसएल के उप प्रबंधक, 16वाँ तल, पी.जे.*टाव्स, दलाल स्टीट, मुम्बई-400001, फोन नं. 18002005533 से संपर्क करें। सदस्यगण akmlace@gmail.com पर अथवा पंजीकृत कार्यालय के पते पर कंपनी सचिव को भी लिख सकते हैं।

पुस्तक बंद होता सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 20 सितम्बर, 2019 से 27 सितम्बर 2019 (दोनों दिवस सहित) तंक बंद रहेंगे।

एकेएम लेस एंड एम्ब्रोटेक्स लिमिटेड के लिये

स्थानः दिल्ली हस्ता./

तिथि: 3 सितम्बर, 2019

राजीव जयसवाल

नई दिल्ली